

BSE Limited

25th Floor, P.J. Towers Dalal Street Mumbai – 400 001

Scrip Code: 530075

August 31, 2024

National Stock Exchange of India Limited

5th Floor, Exchange Plaza,
Bandra – Kurla Complex
Bandra (East), Mumbai – 400 051

Scrip Code: Selan (Equity)

Sub: Intimation under Regulation 30 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 ("SEBI Listing Regulations") – Newspaper publication in relation to the meeting of the Equity Shareholders of the Company pursuant to an order passed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Chandigarh Bench in relation to the Composite Scheme of Arrangement

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the copies of the newspaper advertisement published on August 31, 2024, in Business Standard (English) and Jansatta (Hindi), both in Delhi NCR Editions, in relation to the meeting of the Equity Shareholders of the Company pursuant to an order passed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Chandigarh Bench in respect of the Composite Scheme of Arrangement.

Kindly take the above on record.

Thanking You,

Yours faithfully,

Yogita Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As above

Registered Office:

Unit No. 455-457, 4th Floor, JMD Megapolis, Sector-48, Sohna Road, Gurgaon, Haryana-122018

CIN No.: L74899HR1985PLC113196 Email: admin@selanoil.com Website: www.selanoil.com Corporate Office: 8th Floor, Imperia Mindspace,

Golf Course Extension Road, Sector – 62, Gurgaon – 122 102 Haryana.

Tel. 0124 - 4200325

[CIN: L24110MH1994PLC076156] Registered Office: E/27, Commerce Center 78, Tardeo Road, Mumbai-400034 IDHI Phone No.: 022-6140 6666; Fax No.: 022- 23521980

Website: https://vidhifoodcolors.com/; Email id: mitesh.manek@vidhifoodcolors.com NOTICE OF 31ST ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION This is hereby informed that the 31st Annual General Meeting (AGM) of the Members of **Vidhi Specialty** Food Ingredients Limited is scheduled to be held on Tuesday, September 24, 2024 at 03.30 p.m. (IST) through Video Conferencing ('VC')/ Other Audio-Visual Means ('OAVM') to transact the business as set ou

in the Notice of AGM. Notice of AGM along with Annual Report has been sent only through electronic mode in accordance wi the circular issued by Ministry of Corporate Affairs vide General Circular No. 09/2023 dated Septembe 25, 2023 read with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No. 17/2020 date April 13, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars") and the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') vide its Circular No. SEBI/HO/CFD CFD-PoD-2/P/ CIR/2023/167 dated October 07, 2023 read with circular no. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR 2023/4 dated January 05, 2023, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/ 2020/79 dated May 12, 2020/20 dated May 12 (collectively referred to as "SEBI Circulars"), on Friday, August 30, 2024 to the Members whose e-mail ids are registered with the Company/Depositories/Registrar and Share Transfer Agent ('R&TA'). The same is also available on the website of the Company at https://vidhifoodcolors.com/investor-relation/annual reports/#annual-report and on the website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively. The AGM Notice shall also be available on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") a www.evoting.nsdl.com. Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only Members attending through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum unde section 103 of the Companies Act, 2013.

Electronic copies of all the documents referred to in the Notice of the 31st AGM shall be made available for inspection electronically without any fee by the Members from the date of circulation of this Notice up to the date of 31st AGM. Members seeking to inspect such documents can send an email to vdmlcs@hotmail.com. Instruction for Remote e-voting prior to the AGM and e-voting during the AGM

Detailed procedure for remote e-voting and voting at AGM has been mentioned in the Notice of the

AGM. Login credential and password details are emailed to the Members at their registered email ID

In case of any queries/grievances pertaining to remote e-voting (prior to and/or during the AGM) you may refer to the Frequently Asked Questions ('FAQs') for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available in the 'Downloads' section of www.evoting.nsdl.com or call on 022-4886 7000 or send a request at evoting@nsdl.com.

lembers, who need assistance before or during the AGM, can contact NSDL on evoting@nsdl.com or call on 022 - 4886 7000 or send a request to Ms. Prajakta Pawle at evoting@nsdl.com

As per the MCA Circulars and SEBI Circulars, no physical copies of the Notice of the AGM and Annua Report will be sent to the Members. Members who have not registered their email address are requested to follow the process mentioned below for registering their e-Mail addresses to receive the Notice of AGM and Annual Report electronically and to receive login ID and password for e-voting

In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanne copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card) AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to vdmlcs@hotmail.com.

In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to vdmlcs@hotmail.com.

Please note that the registration of email address through this process is on temporary basis only up to the AGM for limited purpose for receiving the Notice of AGM and login ID and password for e-voting. For ermanent registering/validating/updating of e-mail address, please contact R& TA, M/s. Link Intime India Private Limited, in case shares held in physical mode, or your Depository Participants, in case shares are held in electronic mode.

If the Member is already registered with NSDL e-voting platform, then he can use his existing password for logging in.

Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company afte dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. Tuesday, September 17, 2024 may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if he/she is already registered with NSDL for remote e-voting then he/she can use his/her existing User ID and password for casting the vote.

Notice is hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and the Rules framed there under and pursuant to Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Book of the Company will remain close from Wednesday, September 18, 2024 to Tuesday, September 24, 2024 (both days inclusive).

Pursuant to MCA Circulars and SEBI Circulars referred above read with Section 108 of the Companie Act 2013 Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the Secretarial Standard on General Meeting ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretary of India, the Company is providing facility to all its Members to cast their vote on all resolutions set forth in the Notice of the AGM by electronic means (e-voting). The Company has engaged NSDL to provide platform for e-voting facility for 31st AGM.

Details of e-voting Schedule are as under:

- The cut-off date for the purpose of e-voting: Tuesday, September 17, 2024
- Date of completion of dispatch of notice: Friday, August 30, 2024
- Date & time of commencement of e-voting: Saturday, September 21, 2024 at 09:00 a.m. (IST) Date & time of end of e-voting: Monday, September 23, 2024 at 05:00 p.m. (IST)

Attention is invited to all the shareholders that: Remote e-voting shall not be allowed beyond 05.00 p.m. (IST) on Monday, September 23, 2024. The

- remote e voting module shall be blocked/disabled for voting thereafter; a Member may participate in the General Meeting even after exercising his right to vote through
- Remote e-voting but shall not be entitled to vote again; The Company shall also be providing the e-voting facility during AGM for those Members who are
- attending the AGM through VCC/OAVM and have not voted through remote e-voting. Once vote on a resolution is cast by the Members through e-voting, the Members shall not be allowed to change it; and Member as on the cut-off date i.e. Tuesday, September 17, 2024 shall only be entitled for availing the Remote e-voting facility as per the procedure given in the Notice of the 31st AGM or, as the case may be, during the General Meeting in respect of the business mentioned in the said Notice or vote

For Vidhi Specialty Food Ingredients Limited,

Date: August 30, 2024 Place: Mumbai

Bipin Madhavji Manek Chairman & Managing Director DIN: 00416441

FORM No. CAA-2 [Pursuant to Section 230 (3) and Rule 6 and 7] BEFORE THE HON'BLE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, **CHANDIGARH BENCH-II** COMPANY APPLICATION NO. CA (CAA) 30/CHD/HRY/2024 (UNDER SECTION 230-232 READ WITH SECTION 66 AND SECTION 52 OF THE **COMPANIES ACT, 2013)**

IN THE MATTER OF

SECTION 230 – 232 READ WITH SECTION 66 AND SECTION 52 OF THE COMPANIES ACT, 2013 ALONG WITH RULE 6 AND 7 OF THE COMPANIES (COMPROMISES, ARRANGEMENTS AND AMALGAMATIONS) RULES, 2016.

IN THE SCHEME OF ARRANGEMENT OF: ANTELOPUS ENERGY PRIVATE LIMITED

SELAN EXPLORATION TECHNOLOGY LIMITED

... (TRANSFEROR COMPANY/ APPLICANT COMPANY 1)

..(TRANSFEREE COMPANY/ APPLICANT COMPANY 2) ADVERTISEMENT OF NOTICE OF THE MEETINGS OF THE EQUITY SHAREHOLDERS AND CLASS A1 EQUITY SHAREHOLDERS OF ANTELOPUS ENERGY PRIVATE LIMITED ("TRANSFEROR COMPANY") AND THE MEETING OF EQUITY SHAREHOLDERS OF SELAN EXPLORATION TECHNOLOGY LIMITED ("TRANSFEREE COMPANY")

Notice is hereby given that by an order dated August 12, 2024 ("Order") the Chandigarh Bench of the National Company Law Tribunal ("NCLT") has directed the Meeting of the Equity shareholders and Class A1 Equity shareholders of Antelopus Energy Private Limited and the meeting of the Equity shareholders and Class A1 Equity shareholders of Selan Exploration Technology Limited, to be held for the purpose of considering, and if thought fit, approving, with or without modification(s), the arrangement embodied in the Composite Scheme of Arrangement betwee Antelopus Energy Private Limited ("Transferor Company" or "Antelopus") and Selan Exploration Technology Limited ("Transferee Company" or "Selan") and their respective shareholders and creditors under Section 230-232 read with Section 66 and Section 52 of the Companies Act. 2013 and Rules made thereunder ("Scheme").

In pursuance of the said Order and as directed therein, notice is hereby given that the aforementioned meetings would be held through Video Conferencing ("VC") as per the below mentioned schedule and the eligible participants are requested to attend their respective meetings at the scheduled time:

Schedule of Meetings:

Sr. No.	Class of Meetings	Day & Date of Meetings	Time of Meetings	Place of Meetings	Remote E-Voting Period
1.	Equity shareholders of Antelopus	Saturday, October 05, 2024	10:30 AM	Registered Office (Deemed Venue for VC meeting)	From: Monday, September 30, 2024 at 9:00 AM (IST)
					Till: Friday, October 04, 2024 at 5:00 PM (IST)
2.	Class A1 Equity shareholders	Saturday, October 05, 2024	11:30 AM	Registered Office (Deemed Venue for VC meeting)	From: Monday, September 30, 2024 at 9:00 AM (IST)
	of Antelopus				Till: Friday, October 04, 2024 at 5:00 PM (IST)
3.	Equity shareholders of Selan	Saturday, October 05, 2024	12:30 PM	Registered Office (Deemed Venue for VC meeting)	From: Monday, September 30, 2024 at 9:00 AM (IST)
					Till: Friday, October 04, 2024 at 5:00 PM (IST)

The complete set of respective notices of the aforesaid meetings along with the explanatory statements and requisite annexures are being sent to (a) all the Equity Shareholders of Selan whose names appear in the register of members/register of beneficial owners maintained by Selan/ depositories as on Monday, August 12, 2024; (b) to all the Equity Shareholders of Antelopus whose name appear in the register of members maintained by Antelopus as on Monday, August 12, 2024 and (c) to all the Class A1 Equity Shareholders of Antelopus whose name appear in the register of members maintained by Antelopus as on Monday, August 12, 2024.

If so necessitated, and for the purpose of enabling dissemination of further information, the aforementioned shareholders may update $their email address by sending an email to Selan \ at \underline{investors@selanoil.com} \ and to Antelopus \ at \underline{compliances@antelopusenergy.com}.$ For the purpose of the abovementioned meetings, Antelopus and Selan have engaged the National Securities Depository Limited ("NSDL") to facilitate voting by electronic means, as the authorised agency. The facility of voting for the shareholders, by electronic eans will be provided by NSDL prior to the respective meetings (remote é-voting facility) as well as during the respective meetings --voting facility), whose names are recorded as such as on Monday, August 12, 2024, being the cut-off date as specified by Hon'ble NCLT vide its Order dated August 12, 2024. The shareholder who have cast the vote prior to the meeting may also attend the meeting through VC but shall not be entitled to vote again during their respective meetings. The e-voting facility can be availed by logging or www.evoting.nsdl.com.

A body corporate being the shareholder of Selan and/or Antelopus may appoint any person to act as its representative to participate in the respective meeting and vote through e-voting provided that a copy of the resolution of the board of directors or such other governing body resolution/ authorization etc. of such body corporate authorizing such person, to act as its representative to attend and / or vote or ts behalf, is e-mailed to the scrutinizer at <u>n**iharika.sohal@gmail.com**</u> and to the respective company at <u>investors@selanoil.com</u> (Selan) or at com (Antelopus) not later than 48 hours before the respective meeting. A person who is not a member of the respective Company as on Monday, August 12, 2024 (Cut-off date) should treat the notice for information purposes only and shall not be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting facility at the meeting.

Copies of the said Notice, Explanatory Statement, the Scheme along with requisite annexures can be obtained free of cost at the registered office of Selan and Antelopus between 10.00 AM (IST) and 5.00 PM (IST) on all working days up to the date of the meeting and the same is also available on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com, website of Selan at www.selanoil.com and website of Antelopus at www.antelopusenergy.com. Further, the notice of the meetings of Equity Shareholders of Selan are additionally available on the website of BSE Limited and NSE Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. Since the meetings of the shareholders of the respective Applicant Companies are being held through VC, there will not be any physical attendance of the shareholders. Accordingly, the facility for the appointment of proxies will not be available for the aforesaid Meetings. The Hon'ble NCLT has appointed S P Singh Chawla, Advocate as the Chairman, Mr. Ashwani Sharma, Advocate as the Alternate Chairman and Ms. Niharika Sohal, Company Secretary as the Scrutinizer for all the aforementioned meetings. The Scheme, if approved in the aforesaid meetings, will be subject to the subsequent approval of the Hon'ble NCLT, Chandigarh Bench

Dated: August 31, 2024 S P Singh Chawla, Advocate (Chairman appointed by Hon'ble NCLT for the aforementioned meetings)

DSE ESTATES LIMITED

CIN: U91120DL1947PLC001239

DSE House, 3/1, Asaf Ali Road, New Delhi – 110002

NOTICE OF 76TH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 76TH Annual General Meeting (AGM) o the Company will be held on Friday, September 27th, 2024 at 04:00 PM at the DSE House, 3/1 Asaf Ali Road, New Delhi-110002, to transact the Business mentioned in the notice convening the said meeting, a copy of which has been sent to the shareholders along with Annual Report.

Further, notice is also hereby given that Register of Shareholders and Share Transfer Register of the Company will remain close from September 21, 2024 to September 27, 2024 (both days inclusive) for determining the entitlement of shareholders to attend the above mentioned Annual General Meeting.

> On behalf of Board of Directors Of DSE Estates Limited Vandana Sharma

Place: New Delhi Date: 31.08.2024

Company Secretary HINDUSTAN TIN WORKS LIMITED

Website: www.hindustantin.biz. Contact No.: +91 11-49998888 CIN: L27109DL1958PLC003006 Fax No.: 011-49998822

REGD OFFICE: 426, DLF Tower-A, Jasola, New Delhi-110025

Shaping a canvironment friendly future NOTICE TO THE MEMBERS OF 66[™] ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the Sixty Sixth (66th) Annual General Meeting ('AGM') o he Members of Hindustan Tin Works Limited ('Company') will be held on Friday September 27, 2024 at 11.00 a.m. through Video Conferencing ('VC')/Other Audio Visual Means ('OAVM'), without the physical presence of the Members at the meeting, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 (Act) and the Rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations And Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with MCA General Circulars No. 14/2020, dated 08th April, 2020, No. 17/2020, dated 13th April, 2020, No. 20/2020 dated 05th May, 2020, No. 02/2021 dated 13th January, 2021, No. 21/2021 dated 14th December, 2021, No. 2/2022 Dated 5th May, 2022, No. 10/2022 dated December 28, 2023 and No. 09/2023 dated September 25, 2023 ('MCA Circulars') and SEBI circulars No. 2020/79 dated 12 $^{
m th}$ May, 2020, No. 2021/11 dated 15 $^{
m th}$ January, 2021 No. 2022/079 dated 3" June, 2022, No. 2023/4 January 5, 2023 and October 7, 2023 ('SEBI Circulars') (MCA Circulars and SEBI Circular collectively referred as 'Circulars'), to ransact the businesses as set out in the Notice of the AGM.

n compliance with Circulars, the Notice of the AGM along with the Annual Report for FY 2023-24 ('Annual Report') is being sent by email to all the members only through electronic mode to those Members whose email ids are registered with the Company, Depository participant. The Notice of the AGM and Annual Report are being mad vailable on the Company's website at <u>www.hindustantin.biz</u>, and websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and also on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.evoting.cdsl.com.

Pursuant to Section 108 of the Act, read with Rule 20 of the Companies (Manageme nd Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of he SEBI (LODR) Regulations and SS-2, the Company is providing the remote e-Voting facility before the AGM and e-Voting facility at the AGM to its members to exercise their right to vote on all the resolutions proposed to be transacted at the AGM by electronic means and the facility being provided by CDSL. Facility for e-Voting at the AGM will be made available to those Members present in the AGM through /C/OAVM facility and have not cast their vote on the Resolutions through remote . Voting. The Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the AGM nay also attend/ participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled o cast their vote again. Detailed process and manner of remote e-Voting, e-Voting at the AGM and instructions for attending the AGM through VC/OAVM is being provided n the Notice of the AGM.

rom Saturday, 21st September, 2024 to Friday, 27th September, 2024 (both days inclusive) Members whose email ids are already registered with the Company/ Depositories, may follow the instructions for remote e-Voting as well as e-Voting at AGM as provided in the Notice of the AGM. Members whose email ids are not registered with the Company Depository participants may follow the below process for registering or updating their email ids for receiving all communications including Annual Report, Notices etc. from he Company electronically. Upon successful registration of email id, the login ID and assword for e-Voting shall be shared on the member's registered email id: Demat holding: Members holding Equity Shares of the Company in electronic/demat form and who have not registered their email ids are requested to register

The register of members and share transfer books of the Company will remain closed

- their email ids for receipt of Notice. Annual Report and the login details for Joinin the AGM through VC/OAVM facility including e-voting with their DPs only, as pe the process advised by their DPs. The registered e-mail address will also be used fo sending future communications. Physical holding: Members holding Equity Shares of the Company in physical form
- and who have not registered their email ids and/or Bank details may register their details with Company's RTA, Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd.

or detailed instructions pertaining to e-Voting and joining the Meeting through /C/OAVM. Members may refer to the Notice of 66th AGM. This notice is issued for the information and benefit of the Members of the Compan

compliance with above mentioned Circulars For Hindustan Tin Works Limited

EVP (Finance) & Company Secretary Date: August 30, 2024

Hundreds of Products... One Can!

PUBLIC NOTICE

Format C-2

Raiat Pathak

Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party

(As per the Judgment dated 25th September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name of Political Party: Bhartiya Janata Party

Name of Election: Biennial Elections To The Council of States (Rajya Sabha) Rajasthan

Name of State/ UT: Rajasthan

1	2	3	4		5			
SL. No.	Name of Constituency	Name of Candidate	(A) Pending Cr	iminal Cases		Details abou	ut cases of inal offences	
			Name of Court, Case No. & status of the case(s)	Sections of the Acts concerned & brief description of offence(s)	Name of Court & date (s) of order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed	
1	Biennial Elections to the Council of States (Rajya Sabha) Rajasthan	Ravneet Singh	Before the Chief Judicial Magistrate Bathinda, Court No 6, Case No. UCR/553/2021 & UCR/148/2022 Charges have been not Framed	Section 353/ 186/332/ 148/149 IPC As per FIR No. 156, Articles of Agricultural Office of Bathinda was damaged.	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	
2	Biennial Elections to the Council of States (Rajya Sabha) Rajasthan	Ravneet Singh	Not Applicable, FIR No. 25 & PS, Ladhuwal, Ludhiana, Chargesheet have been not submitted	Section 323/ 341/506/452/ 148/149 IPC Forcefully closed the Carcass utilization plant at Noorpur Bet	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	
3	Biennial Elections to the Council of States (Rajya Sabha) Rajasthan	Ravneet Singh	Not Applicable, FIR No. 14 & PS Division No.1, Ludhiana, Chargesheet have been not submitted	Section 353/ 186/149 IPC. Forcefully locked Corporation Office, Zone-A and interrupted the working of Government	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	

In the case of election to Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of constituency.

officials.



Signature of office bearer of the Political Party Name and designation Mukesh Pareek State Office Secretary BJP Raj.



SHRIRAM HOUSING FINANCE LIM

Head Office: Level -3, Wockhardt Towers, East Wing C-2 Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051; **Tel:** 022 4241 0400, 022 4060 3100 ; **Website:** http://www.shriramhousing.in Reg. Off: No.123, Angappa Naicken Street, Chennai-600 001;

Branch Office: L1 & L2, Above SBI Bank, Gurudwara Road, Green Park Extension, New Delhi - 110016. [SEE PROVISION TO RULE 8(6)] SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIE

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security $Interest\,Act, 2002\,read\,with\,provision\,to\,Rule\,8(6)\,of\,the\,Security\,Interest\,(Enforcement)\,Rules, 2002.$

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower/s and Guarantor/s that the below described immovable properties mortgaged/ charged to The Shriram Housing Finance Limited, The Physical possession of which have been taken by the Authorized Officer of The Shriram Housing Finance Limited., will be sold on "As is where is", "As is what is" and "Whatever there is" basis in E-auction for recovery of the balance due to The Shriram Housing Finance Limited from the Borrowers And Guarantors, as mentioned in the table. Details of Borrowers and Guarantors, amount due, Short Description of the immovable property and encumbrances known thereon, possession type, reserve price and earnest money deposit, Date and Time of Auction are also given as:

Guarantors/Mortgagers	of 13(2) Demand Notice	Description of Property	Reserve Price (Rs.) & Bid Increment	Deposit Details (EMD) Details.	Date & Time of Auction	Contact Person and Inspection date
M/S. Diamond Sweets Through it's Proprietor/ Partner/Manager Director/ Authorised Signatory Shop No.G -58 ,Ground Floor, Vardhman Plus City Mall, Sector- 23 , Dwarka, New Delhi -110075. Mrs. Pooja Sharma W/o Sh.Rakesh Sharma Flat No. A- 1-083, 8th Floor, Sobha City,Sector- 108, Dwarka Express Way, Gurugram,Haryana- 122006. Also At: House No. VII/19,old No. VII/550/19, Khasra No.742,Jwala Nagar, Shahdara,Delhi- 110032. Mr. Rakesh Sharma S/o Late Sh.Ram Prakash Flat No. A- 1-083, 8th Floor Sobha City,Sector- 108, Dwarka Express Way, Gurugram,Haryana- 122006. Also At: House No.7/19-A, Jwala Nagar, Lahori Wali Gali, Shahdara Delhi-110032. Also At: House No. VII/19,old No. VII/550/19, Khasra No.742,Jwala Nagar, Shahdara,Delhi- 10032. Mr. Mukesh Sharma S/o Late Sh.Ram Prakash Sharma Flat No. A- 1-083, 8th Floor, Sobha City,Sector- 108, Dwarka Express Way, Gurugram,Haryana- 122006. Also At: House No.7/19-A, Jwala Nagar, Lahori Wali Gali, Shahdara, Delhi 110032. Date of Possession & Possession Type 26-July-2024 - Physical Possession Encumbrances known Not Known	Demand Notice Date: 13-April- 2024 Rs.32,50,686/- (Rupees Thirty Two Lakh Fifty Thousand Six Hundred Eighty Six Only) as on 06-April-2024 under reference of Loan Account No. SLPHGPRK0001 527 Total Outstanding As On Date 06- April-2024 Rs.32,50,686/- (Rupees Thirty Two Lakh Fifty Thousand Six Hundred Eighty Six Only)	All that part and parcel of the Property bearing Second Floor with Roof Rights, built up on house No. VII/19, old No. VII/550/19, Land Area Measuring:-115 Sq., Yrds., Khasra No.742, Jwala Nagar, Shahdara, Delhi-110032. Bound aries of the said Property:-North: Other Property, East: Other Property West: Gali	Rs.37,00,000/- (Rupees Thirty Seven Lakh Only) Bid Increment: Rs. 10,000/- and in such multiples. Earnest Money Deposit (EMD) (Rs.) Rs.3,70,000/- (Rupees Three Lakh Seventy Thousand Only) Last date for submission of EMD - 04-Oct- 2024 Till 5 pm.	EMD amount to be deposited by way of RTGS/ NEFT/ Demand Draft to the account details mentioned herein below: BANK NAME-AXIS BANK LIMITED BRANCH-BANDRA KURLA COMPLEX, MUMBAI BANK ACCOUNT NO-CUrrent Account No. 911020045677 633 IFSC CODE-UTIB0000230	07th 0Ct- 2024 Time. 11.00 a.m. to 01.00 p.m.	Mr.Sanjeev Shanra@ 9810328494, Mr. Nikhil Kumar - 7053869593, Ashfaq Patka- 9819415477, Property Inspection Date: 01-Oct- 2024 Time 11.00 a.m. to 04.00 p.m

Finance Limited website and auction service provider website https://www.bankeauctions.com.

STATUTORY 30 DAYS SALE NOTICE FOR SUBSEQUENT SALE UNDER RULE 8(6) AS PER AMENDED SARFAESI ACT, 2002. The mortgagors/borrowers are given a last chance to pay the total dues with further interest before auction, failing which secured assets will be sold as per above schedule.

The mortgagors/borrowers are Request to take back all movable items which are inside the property.

NB: Please note that the secured creditor is going to issue the sale notice to all the Borrowers/ Guarantors/ Mortgagors by speed/ registered post. In case the same is not received by any of the parties, then this publication of sale notice may be treated as a substituted mode of service.

Place: New Delhi Sd/- Authorised Officer

Date: 31-08.2024

Shriram Housing Finance Limited

ब्रिलियंट पोर्टफोलियोज् लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः बी-09, 412, आईटीएल टॉवर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली- 110088 ਟੇलੀ: 011-45058963, CIN: L74899DL1994PLC057507 ई-मेलः brilliantportfolios@gmail.com, वेबसाइट www.brilliantportfolios.com

30वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सुचना एतदुद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की 30**वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") रविवार, 29 सितंबर, 2024 को** पूर्वाह्न 11:30 बजे इलेक्ट्रॉनिक मोड यानी वीडियो कांफ्रॉसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("वीसी"/"ओएवीएम") के माध्यम से एजीएम की सूचना में बताए गए अनुसार व्यापार को पूरा करने के लिए आयोजित की जाएगी। एजीएम कॉरपोरेट

अफेयर्स मंत्रालय (नवीनतम परिपत्र दिनांक 25 सितंबर, 2023) ("एमसीए परिपत्र") द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से आयोजित की जाती है। एमसीए सर्कुलर और भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) जारी सर्कुलर के अनुपालन में, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और सेबी (सुचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सेबी सुचीकरण विनियम") परिपत्र के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-2024 के वार्षिक रिपोर्ट के साथ 30वीं एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जाएगी, जिनके ई–मेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर

एजेंट ("आरटीए") या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ("डीपी")/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। जिन सदस्यों ने अभी तक अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं, उनसे अनुरोध है कि यदि उनके पास डीमैट रूप में शेयर हैं तो वे अपने डीपी के पास तथा यदि उनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं तो कंपनी/आरटीए के पास ई-मेल पते पंजीकृत कराएं। इसके साथ ही, आरटीए की ई-मेल आईडी investor@masserv.com पर कंपनी को प्रतिलिपि मार्क करके brilliantportfolios@gmail.com पर भी ई-मेल करें।

वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.brilliantportfolios.com और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगी। नोटिस एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगा। सदस्य केवल वीसी/ओवीएएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं। वीसी/ओवीएएम के माध्यम से एजीएम में शामिल

होने की प्रक्रिया और निर्देश नोटिस में बताए गए हैं। सभी सदस्यों (भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों/जिनके मेल पते डीपी/कंपनी/आरटीए के साथ पंजीकत नहीं हैं) के लिए

एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की विस्तृत प्रक्रिया और निर्देश नोटिस में दिए गए हैं। कृते ब्रिलियंट पोर्टफोलियोज लिमिटेड स्थानः नई दिल्ली आशीष

दिनांक: 30.08.2024 कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

कब्जा-सूचना पंजी. कार्याः 27BKC, C-27, G-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400051 शाखा कार्यालयः प्लॉट नंबर ७, ७वीं मंजिल, सेक्टर -125, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201313

जबिक, अधोहस्ताक्षरी कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों वे प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 की धारा 13(12) के साथ पठित प्रतिभूति हिंत प्रवर्तन अधिनियम,2002 (2002 का 54) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हु उधारकर्ताओं को मांग नोटिस जारी किया, जैसा कि नीचे दिया गया है, संबंधित उधारकर्ताओं को उसी की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान की वास्तविक तिथि तक सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ उक्त नोटिस में उल्लिखित राशि को चुकाने के लिए कहा गया है।उक्त ऋणी/सह-उधारकर्ता राशि का भूगतान करने में विफल रहने पर, उधारकर्ताओं / सह–उधारकर्ताओं और आम जनता को एतद्दवारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उक्त नियमों के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर उस पर उल्लिखित तिथियों को कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम तौर पर जनता को सावधान किया जाता है कि वे संपत्तियों के साथ सौदा न करें और संपत्तियों के साथ कोई भी लेनदेन करने पर संबंधित तिथियां से भविष्य में ब्याज, लागत और शुल्क के साथ इसमें निर्दिष्ट राशि के लिए कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा। सुरक्षित परिसंपत्तियों को भूनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया जाता है। उधारकर्ताओं का विवरण, अनुसूचित संपत्ति, बकाया देय राशि, धारा 13(2) के तहत भेजे गए डिमांड नोटिस

आर उसक तहत दावा का गई सार	ा, कब्ज का ताराख न	।च दा गई हैं:
उधारकर्ता, सह—उधारकर्ता का नाम और पता, ऋण खाता संख्या, ऋण राशि	अचल संपत्ति का विवरण	 कब्जे की तिथि 2. कब्जे का प्रकार मांग सूचना दिनांक 4. देय राशि रु.

मेसर्स वी गो मोटर प्राइवेट लिमिटेड अपने सेक्टर 53, गांव वजीराबाद, महरौली 1. 28.08.2024 निदेशक श्री विवेक गोयल और श्रीमती अंजू गुड़गांव रोड, (डीएलएफ सिटी के 2. भौतिक कब्जा गोयल और श्री विवेक गोयल के माध्यम से, पास),तहसील और जिला गुड़गांव के 3. 19.01.2024 स्वर्गीय श्री मूल चंद गोयल और श्रीमती अंजू हिरयाणा राज्य में स्थित बहुमंजिला इमारत गोयल, पुत्र श्री विवेक गोयल, सभी के पते: जिसे "साउथ प्वाइंट" के नाम से जाना 4 रु.2,73,73,160.34/-ई1/4, पांडव नगर, हीरो मोटरकॉर्प शोरूम जाता है, भूमि के भूखंड पर निर्मित है,में (दो करोड़ तिहत्तर के ऊपर, पटपड़गंज, दिल्ली–110092 और निचले तल पर दुकान संख्या एलजी–027 लाख तिहत्तर हजार सभी के पतेः एच.नं. 76, सेक्टर—15 पार्ट प का वह सम्पूर्ण टुकड़ा और अंश ,जिसका एक सौ चौसठ एवं गुड़गांव—122001 और सभी के पतः सेवा ग्रांड माप 3.272 एकड़ (13241.784 वर्ग मीटर) चौतीस पैसे मात्र) मॉल, मथुरा रोड, फरीदाबाद – 121003 और खसरा संख्या (एस) 310/1/2/2, 2393 सभी के पतेः 605 / 5 पटेल नगर, गुड़गांव हरियाणा—122001 और सभी के पतेः दुकान 70,307 वर्ग मीटर (757 वर्ग फीट) ग्रा दिनांक 28,08,2024 | 70.307 वर्ग मीटर (757 वर्ग फीट) या | दिनांक 28.08.2024 ⁻ नंबर 27 निचला तल, डीएलएफ साउथ उसके आसपास है, जो संलग्न योजना में पर्ण भगतान होने तक प्वाइंट मॉल, सेक्टर-53 गोल्फ कोर्स गुरुग्राम, है औरनिम्नानुसार अनुसार घिरा हुआ है- लागू ब्याज के साथ हरियाणा—122011 उत्तर-एलजी-028,024, पश्चिम-खुला। ऋण खाता सं. 04301 दक्षिण-एलआईजी-026, पूर्व- मार्ग/

किसी भी प्रश्न के लिए कृपया श्री पंकज राय (मोबाइल नंबर +917768003567) एवं श्री मनीष सती मोबाइल नंबर (+919855078208) से संपर्क करें।

ऋण राशि :रु. 1,83,70,000/— (एक करोड़ एलजी— बंधककर्ता का नामः श्री विवेक

प्राधिकत अधिकारी कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के लिए दिनांकः 31.08.2024, स्थानः नोएडा



तिरासी लाख सत्तर हजार रूपये मात्र)।

RATHI BARS LIMITED

Regd. Office: A-24/7, Mohan Co-operative Industrial. Estate. New Delhi-110044 Ph.: 011-42760373, 42730360 Web: www.rathisteels.com, E-mail: rathibars@hotmail.com NOTICE OF THE 31ST ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that 31" Annual General Meeting of the Company will be held on Tuesday, the 24th September, 2024 at 10:00 A.M. IST through video conferencing ("VC") / other audio-visual means ("OAVM"). The Annual Report of the Company for the financial year 2023-24 including the financial

statements along with the Notice of the AGM will be sent only by email to all those members whose email addresses are registered with the Company or with their respective Depository Participants and the Company's Registrar and Transfer Agent, in accordance with the MCA Circulars and the SEBI Circulars.

The dispatch of notice of AGM, through e-mail shall be completed by 01.09.2024. Notice is also hereby given, pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 42 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 that the register of members and share transfer books of the Company will remain closed from 19° September, 2024 to 24th September, 2024 (Both days inclusive) for 31th Annual General Meeting

In compliance with the Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 and Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules. 2014, the Company is pleased to inform that it is offering remote e-voting facility to all the shareholders of the Company

in respect of all the items to be transacted at the said Meeting. Members are also informed that the Notice of the 31st AGM along with detailed instructions for e-voting and Annual Report for the year 2023-24 will also be available on the Company's website http://rathisteels.com/, website of stock exchange i.e. www.bseindia.com. The e-voting period shall commence on Saturday 21" September, 2024 at 09:00 AM and shall end on Monday 23"

September, 2024 at 05:00 PM. The Company has appointed M/s PWR Associates, Company Secretaries, Delhi as the Scrutinizer

to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner For detailed instructions pertaining to remote e-voting, Members may refer to the "Notes" set out in the Notice of the AGM. In case of any query regarding e-voting or technical assistance, members

may contact at info@masserv.com. Members who have not registered their email addresses, so far, are also requested to register their email address in respect of demat holdings with depository through their concerned depository

Participants. Members who hold the shares in physical form are requested to get their email id registered with MAS Services Limited, Registrar & Share Transfer Agent (RTA) of the Company. By order of the Board For RATHI BARS LIMITED

Place: New Delhi Date: 30.08.2024

(Anamika Shukla) Company Secretary and Compliance Officer

बर्विन इन्वेस्टमेंट एंड लीजिंग लिमिटेड 607, रोहित हाउस, 3, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110001 सीआईएन : L65993DL1990PLC039397 ईमेल आईडी:- secretary@bervin.com; वेबसाइट: www.bervin.com

34वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, ई-वोटिंग सूचना एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि बर्विन इन्वेस्टमेंट एंड लीजिंग लिमिटेड ("कंपनी") की 34वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, 25 सितंबर, 2024 सुबह 09:00 बजे (आईएसटी) को एजीएम की सूचना में निर्धारित कार्यवाही करने के लिए, नंबरदार चौपाल, शीतल टेंट हाउस के पास, गली नंबर—2, कपासहेडा, हाई टेंशन वाली गली, दिल्ली—110037 में आयोजित होने वाली है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट (वित्तीय विवरण, लेखा परीक्षक की

रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट और एजीएम की सूचना सहित) का इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण/भौतिक प्रेषण 30 अगस्त, 2024 को पूरा हो गया है। ये सभी सूचना कंपनी की वेबसाइट www.bervin.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com/ पर भी उपलब्ध हैं। कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 ("नियम") के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम,

2013 ("अधिनियम") की धारा 108 के प्रावधानों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, २०१५ ("विनियम") के विनियम ४४, जैसा कि संशोधित किया गया है,के अनुसार, कंपनी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एजीएम में वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है और एनएसडीएल द्वारा प्रदान किए गए रिमोट ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्यवाही किया जा सकता है।

रिमोट ई–वोटिंग और मतदान के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने की कट–ऑफ तारीख बुधवार, 18 सितंबर, 2024 है। कोई व्यक्ति जो कट—ऑफ तारीख तक सदस्य नहीं है, उसे इस ोटिस को केवल सूचना के लिए लेना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोट डालने के लिए एक युजर आईडी और पासवर्ड सभी सदस्यों को भेज दिया गया है।

1. रिमोट ई—वोटिंग रविवार, 22 सितंबर, 2024 (सुबह 9:00 बजे आईएसटी) से शुरू होगी और मंगलवार, 24 सितंबर, 2024 (शाम 05:00 बजे आईएसटी) को समाप्त होगी। इसके बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल "एनएसडीएल " द्वारा अक्षम कर दिया जाएगा। एक बार सदस्य द्वारा वोट डालने के बाद, उसे बाद में इसे बदलने या फिर से वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई-वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया / निर्देश एजीएम की सूचना में निहित हैं।

कोई भी व्यक्ति, जो नोटिस भेजे जाने के बाद शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट—ऑफ तिथि यानी बधवार, 18 सितंबर, 2024 को शेयर रखता है, वह evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में भी दी गई है, जो कंपनी की वेबसाइट और एनएसडीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

हालाँकि, यदि आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं, तो आप अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध " भूल गए उपयोगकर्ता विवरण / पासवर्ड " विकल्प का उपयोग करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं या निम्नलिखित टोल फ्री नंबर : 022-4886 7000 पर एनएसडीएल से संपर्क कर सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम या पोलिंग पेपर के माध्यम से मतदान करने की सुविधा भी एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी।

कोई सदस्य रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है, लेकिन उसे एजीएम में फिर से मतदान करने की

अनुमति नहीं दी जाएगी। . वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा कट ऑफ तारीख को बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, वह रिमोट ई-वोटिंग की सविधा के साथ-साथ एजीएम में वोटिंग का भी हकदार होगा।

कंपनी ने ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए पूर्णकालिक कंपनी सचिव सुश्री मनीषा गुप्ता को स्क्रूटिनाइज़र नियुक्त किया है। उन्होंने ऐसी नियुक्ति के लिए अपनी सहमति दे दी है।

किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य शेयरधारकों के लिए अक्सर पछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्य) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में देख सकते हैं या 022-4886 7000 (टोल फ्री) पर एनएसडीएल को कॉल कर सकते हैं या श्री रविंदर दुआ,प्रबंधक, आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड,बी-25/1, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-II, नई दिल्ली-110020, दूरभाष:--011--26387320--21 से संपर्क कर सकते हैं।

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 30-08-2024

बोर्ड के आदेशानुसर बर्विन इन्वेस्टमेंट एंड लीजिंग लिमिटेड के लिए

हस्ता -/ कल्पना उमाकांत कंपनी सचिव



चोलामंडलम इंवेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

निगमित कार्यालय: चोल क्रेस्ट, सी54 और 55, सुपर बी-4, थिरु वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी, चेन्नई 600032, भारत, शाखा कार्यालय : प्रथम एवं द्वितीय तल, भूखंड सं. ६, मुख्य पूसा मार्ग, करोल बाग,

अधिग्रहण सूचना नियम 8 (1) के अंतर्गत

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **मैसर्स चोलामंडलम इंवेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड** के प्राधिकत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (यहां इसमें इसके उपरांत अधिनियम के रूप में संबोधित) के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, मांग सूचनाएं निर्गत की थीं, जिनमें उधारकर्ताओं, जिनके नाम निम्न स्तंभ (ख) में निदर्शित किए गए हैं, को निम्न स्तंभ (घ) में उल्लेखित बकाया राषि का राशि पर ब्याज के साथ निम्न स्तंभ (ग) में विनिर्दिष्ट तिथियों पर, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। उधारकर्तागण निर्धारित बकाया राषि का प्रतिभगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदद्वारा उधारकर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को सामान्य रूप में सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने, यहां इसमें निम्न स्तंभ (ड.) में विवरणित कंपनी के पास बंधककृत संपत्तियों का, उक्त नियमावली के अंतर्गत विरचित नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, निम्न स्तंभ (च) में अंकित संबंधित तिथियों पर, अधिग्रहण कर लिया है।

उधारकर्ताओं को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि निम्न स्तंभ (ङ.) में वर्णित संपत्तियों का लेन–देन न करें तथा इस प्रकार का कोई भी लेन–देन, ब्याज एवं अन्य शुल्कों के साथ निम्न स्तंभ (घ) में अंकित एक राशि हेत् मैसर्स चोलामंडलम इंवेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

प्रतिभृतिकरण अधिनियम की धारा 13 (8) के अंतर्गत, उधारकर्तागण विक्रय की अधिसूचना से पूर्व समस्त लागतों, शुल्कों एवं व्ययों सहित संपूर्ण बकाया देयराशि का भगतान करके प्रतिभत परिसंपत्ति को छड़वा सकते हैं।

क्र. सं.	आवेदक का नाम एवं पता तथा ऋण खाता संख्या	मांग सूचना की तिथि	बकाया राशि	अधिग्रहीत संपत्ति के विवरण	मीतिक अधिग्रहण की तिथि
[A]	[B]	[C]	[D]	[E]	[F]
1.	ऋण खाता संख्या : X0HEDHE00001266800 तथा X0HEEDL00001512870 1. आशा रानी (आवेदक) 2. राजिंदर बब्बर (सह—आवेदक) 3. जितेंदर बब्बर (सह—आवेदक) सभी का निवास—पता : 185, ब्लॉक बीएम (पश्चिम), शालीमार बाग, नई दिल्ली — 110088	13.12.2023	で、30,24,111/一 08—12—2023	संपत्ति — भूखण्ड सं. 185, ब्लॉक सं. बीएम (पश्चिम), शालीमार बाग आवासीय योजना के लेआउट प्लान, दिल्ली—88 में स्थित, क्षेत्र माप 180 वर्ग मीटर, जो निम्नानुसार परिसीमित है :— पूर्व— सड़क 18 मीटर, पश्चिम— एस. लेन, उत्तर— भूखण्ड सं. 186 तथा दक्षिण— भूखण्ड सं. 184	29.08.2024 भीतिक

SMFG Grihashakti

कंपनी सचिव

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्व मेंफुलर्टन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड)

कॉर्पोरेट ऑफिसः 503 और 504, 5वीं मंजिल, जी-ब्लॉक, इंसपायाबीकेसी, बीकेसीमेनरोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई-400 051 **रजि. ऑफिसः** मेघटावर्स, तीसरी मंजिल, पुरानानंबर 307, नयानंबर 165, पूनमल्ली हाई रोड मदुरावॉयल, चेन्नई– 600 095,

अचल संपत्ति के लिए कब्जा सूचना [(परिशिष्ट IV) नियम 8(1)]

जबिक अधोहस्ताक्षरी एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्व में फुलर्टन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड) का प्राधिकृत अधिकारी होने के रूप मे जो एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है ख्राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ विधिवत पंजीकृत (आरबीआई द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली), (इसके बाद इसे एसएमएफजी के रूप में संदर्भित किया गया है) वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत, और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियमों के नियम 3 के तहत धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 2002 में उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नीचे उल्लिखित डिमांड नोटिस जारी किया गया था, जिसमें आपको उधारकर्ता (नीचे उल्लिखित नाम) होने के नाते उक्त नोटिस में उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। नीचे उल्लिखित उधारकर्ता राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित संपत्ति पर नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उप के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13 की धारा (4) को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ कब्जा ले लिया है। ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और सामान्य रूप से जनता को इसके द्वारा आगाह किया जाता है कि वे उक्त संपत्ति और किसी के साथ लेनदेन न करें। संपत्ति के साथ लेनदेन नीचे उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज के लिए 'एसएमएचएफसी' के शुल्क के अधीन होगा।

क्रं सं.	उधारकर्ता (ओं) / गारंटर (ओं)का नाम लैन	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना की तिथि एवं राशि	कब्जे की तिथि
1	लैन :— 609139211261567 एवं 609139511332701. (1) जनेश कुमार (2) संगीता देवी (3) सौरभ कुमार (4) सचिन	संपत्ति संख्या बी–13/6 में सच, और नया नंबर बी–13/6–ए, बाहर खसरा नंबर 298, बी–ब्लॉक गली नंबर 3, भजनपुरा, इलाका शांहादरा दिल्ली – 110053 की आबादी में ग्राम घोंडा गुजरान खादर में स्थित।	14.06.2024 रु. 23,09,774/— (रुपये तेईस लाख नी हजार सात सी चौहत्तर मात्र) 12.06.2024 तक	27.08.2024
2	लैनः—609108810718771, 605438310890533 और 609138310726825. (1) स्वर्गीय राधेश्याम पांडे कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से (2) ममता पांडे (3) संजय पांडे	प्रवेश निर्मित तीसरी मंजिल छत के अधिकार के साथ फ्री होल्ड निर्मित संपत्ति का हिस्सा असर संख्या डब्युजेड—पी —535—बी, क्षेत्रफल 75 वर्ग गज, (62.71 मीटर) खसरा नंबर 366, खेवट नंबर 20६21 में से प्लॉट नंबर 34 और 35 पर निर्मित, गांव सलीमपुर माजरा, मादीपुर, दिल्ली कॉलोनी के क्षेत्र में स्थित है जिसे ऋषि नगर शकूर बासित दिल्ली — 110034 के नाम से जाना जाता है।	14.06.2024. रु. 9,84,249 /— (रुपये नौ लाख चौरासी हजार दो सौ उन्चास मात्र) 12.06.2024 तक	27.08.2024
3	लैनः— 609139210843539 (1) नरेन्द्र कुमार राठौर (2) सावित्री	बिना छत के अधिकार के निर्मित प्रथम तल उक्त तल संपत्ति का हिस्सा है जिसका नाम है संख्या 27/1, क्षेत्रफल 50 वर्ग गज, खसरा संख्या 201 में से, ब्लॉक ए में, ग्राम नसीरपुर दिल्ली राज्य कॉलोनी की राजस्व संपदा में स्थित है जिसे दुर्गा पार्क नई दिल्ली के नाम से जाना जाता है, इसकी सीमा इस प्रकार है:— पूर्व:— प्लॉट संख्या 28, पश्चिम:— गली 15 फीट, उत्तर:— अन्य संपत्ति, दक्षिण:— अन्य संपत्ति।	14.06.2024. रु. 20,31,509 / — (रुपये बीस लाख इकतीस हजार पाँच सौ नौ मात्र) 12.06.2024 तक	27.08.2024
4	लैनः— 610307510487291 (1) चांद बशलुदीन पुत्र बशीलउद्दीन (2) गुड़िया बेगम	प्लाट संख्या 6 के भाग पर निर्मित मकान, क्षेत्रफल 74.32 वर्ग मीटर, नारायण नगर, मौजा बोदला, लोहामंडी वार्ड, तहसील और जिला आगरा में स्थित है। बिक्री विलेख के अनुसार सीमाएं: — पूर्व:—प्लाट संख्या 5 श्रीमती रजीना बेगम, पश्चिम:—प्लाट संख्या 6 का भाग, उत्तर:—रोड 6.09 मीटर, दक्षिण:—अन्य।	11.05.2024 रुपये 11,00,407 /— (ग्यारह लाख चार सौ सात रूपये मात्र) 09.05.2024 तक	27.08.2024
5	लैन:— 612839511201008 (1) दिनेश सैनी पुत्र सर्वेश कुमार (2) सर्वेश कुमार पुत्र राम चंद्र	मुरादाबाद के मझोला परगना में स्थित खसरा संख्या 621 में से 266.64 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला एक आवासीय मकान, जिसकी सीमा इस प्रकार है:— पूर्व:— तिरखा सिंह का मकान, पश्चिम:— जसपाल का मकान, उत्तर:— रोड 12 फिट चौड़ा, दक्षिण:— द्वारका सिंह,	19.04.2024 रुपये 26,20,537/— (रुपये छब्बीस लाख बीस हजार पांच सौ सैंतीस मात्र) 18.04.2024 तक	27.08.2024

स्थान , दिल्ली/आगरा/मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश दिनांकः 27.08.2024

प्राधिकृत अधिकारी, एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनीलिमिटेड (पूर्व मेंफुलरटन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड)

फॉर्म संख्या सीएए-2 (धारा 230(3) और नियम 6 और 7 के अनुपालनार्थ) माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ बेंच—प्प के समक्ष

कंपनी आवेदन संख्या सीए (सीएए) 30 / सीएचडी / एचआरवाई / 2024 (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 66 और धारा 52 के साथ धारा 230-232 के अंतर्गत)

कंपनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियम, 2016 के नियम 6 और 7 के अंतर्गत के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 66 और धारा 52 के साथ धारा 230-232 के मामले में,

निम्नलिखित की व्यवस्था की योजना में: एंटेलोपस एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड सेलान एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड .(हस्तांतरक कंपनी / आवेदक कंपनी 1)

.(हस्तांतरित कंपनी / आवेदक कंपनी 2)

एंटेलोपस एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ("ट्रांसफेरर कंपनी") के इक्विटी शेयरधारकों एवं क्लास ए1 इक्विटी शेयरधारकों की बैठकों और सेलन एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड ("ट्रांसफररी कंपनी") के इक्विटी शेयरधारकों की बैठक की सूचना का विज्ञापन। एतद्दवारा दी जाती है कि 12 अगस्त, 2024 ("आदेश") के आदेश द्वारा राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ("एनसीएलटी") की चंडीगढ पीठ ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 66 और धारा 52 के साथ पठित धारा 230-232 के तहत और उसके तहत बनाए गए नियमों ("योजना") के तहत एंटेलोपस एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ("ट्रांसफरर कंपनी" या "एंटेलोपस") और सेलन एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड ("हस्तांतरिती कंपनी" या "सेलन") और उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों के बीच व्यवस्था की समग्र योजना में निहित व्यवस्था पर एंटेलोपस एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारकों और क्लास ए1 इक्विटी शेयरधारकों की बैठक और सेलन एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारकों की बैठक को इस बात पर विचार करने के उद्देश्य से आयोजित करने का निर्देश दिया है, और यदि उचित समझा जाए तो, संशोधन के साथ या बिना संशोधन अनुमोदन किया जाए।

उक्त आदेश के अनुसरण में तथा उसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार, यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त बैठकें नीचे उल्लिखित कार्यक्रम के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") के माध्यम से आयोजित की जाएंगी तथा पात्र प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे निर्धारित समय पर अपनी–अपनी बैठकों में उपस्थित हों:

बैठकों का कार्यक्रमः

क्रं.	बैठकों का वर्ग	बैठकों का दिन और तिथि	बैठकों का समय	बैठकों का स्थान	दूरस्थ ई—मतदान अवधि
1.	एंटेलोपस के इक्विटी शेयरधारक	शनिवार, ०५ अक्टूबर, २०२४	10:30 पूर्वाह्न	पंजीकृत कार्यालय (वीसी बैठक के लिए माना गया स्थान)	सेः सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को सुबह 9:00 बजे (आईएसटी) तकः शुक्रवार, 04 अक्टूबर, 2024 को शाम 5:00 बजे (आईएसटी)
2.		शनिवार, ०५ अक्टूबर, २०२४	11:30 पूर्वाह्न	पंजीकृत कार्यालय (वीसी बैठक के लिए माना गया स्थान)	से: सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को सुबह 9:00 बजे (आईएसटी) तकः शुक्रवार, 04 अक्टूबर, 2024 को शाम 5:00 बजे (आईएसटी)
3.	सेलन के इक्विटी शेयरधारक	शनिवार, ०५ अक्टूबर, २०२४	दोपहर 12:30 बजे	पंजीकृत कार्यालय (वीसी बैठक के लिए माना स्थल)	सेः सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को सुबह 9:00 बजे (आईएसटी) तकः शुक्रवार, 04 अक्टूबर, 2024 को शाम 5:00 बजे (आईएसटी)

उपर्युक्त बैठकों के संबंधित नोटिस का पूरा सेट व्याख्यात्मक बयानों और अपेक्षित अनुलग्नकों के साथ (ए)सेलन के सभी इक्विटी शेयरधारकों को भेजा जा रहा है जिनके नाम सोमवार. 12 अगस्त. 2024 को सेलन / डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए सदस्यों / लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं: (बी) एंटेलोपस के सभी इक्विटी शेयरधारकों को, जिनका नाम सोमवार, 12 अगस्त, 2024 को एंटेलोपस द्वारा बनाए गए सदस्यों के रजिस्टर में दिखाई देता है और (सी) एंटेलोपस के सभी क्लास ए1 इक्विटी शेयरधारकों को, जिनका नाम सोमवार, 12 अगस्त, 2024 को एंटेलोपस द्वारा बनाए गए सदस्यों के रजिस्टर में दिखाई देता है।

यदि आवश्यक हो, और आगे की जानकारी के प्रसार को सक्षम करने के उद्देश्य से, उपर्युक्त शेयरधारक सेलन को investors@selanoil.com पर और एंटेलोपस को compliances@antelopusenergy.com पर ईमेल भेजकर अपना ईमेल पता अपडेट कर सकते हैं। उपर्युक्त बैठकों के उद्देश्य से, एंटेलोपस और सेलन ने अधिकृत एजेंसी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") को नियुक्त किया है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन शेयरधारकों के लिए वोटिंग की सुविधा एनएसडीएल द्वारा संबंधित बैठकों से पहले (दूरस्थ ई–वोटिंग स्विधा) और साथ ही संबंधित बैठकों के दौरान (ई–वोटिंग सुविधा) प्रदान की जाएगी, जिनके नाम सोमवार, 12 अगस्त, 2024 को दर्ज किए जाएंगे, जो कि माननीय एनसीएलटी द्वारा 12 अगस्त, 2024 के आदेश के अनुसार निर्दिष्ट कट—ऑफ तिथि है। बैठक से पहले वोट देने वाले शेयरधारक वीसी के माध्यम से भी बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन अपनी संबंधित बैठकों के दौरान फिर से वोट करने के हकदार नहीं होंगे। ई–वोटिंग सुविधा का लाभ www.evoting.nsdl.com पर लॉग इन करके उठाया जा सकता है।

सेलन और / या एंटेलोपस का शेयरधारक होने के नाते कोई भी कॉर्पोरेट किसी भी व्यक्ति को संबंधित बैठक में भाग लेने और ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है, बशर्ते कि निदेशक मंडल के संकल्प या ऐसे अन्य शासी निकाय के संकल्प/प्राधिकरण आदि की एक प्रति, ऐसे व्यक्ति को, अपनी ओर से भाग लेने और/या मतदान करने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत करते हए, जांचकर्ता को niharika.sohal@gmail.com पर और संबंधित कंपनी को investors@selanoil.com (सेलन) या compliances@antelopusenergy.com (एंटेलोपस) पर संबंधित बैठक से 48 घंटे पहले ई–मेल की जाए। कोई व्यक्ति जो सोमवार, 12 अगस्त, 2024 (कट—ऑफ तिथि) तक संबंधित कंपनी का सदस्य नहीं है, उसे नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए और वह बैठक में रिमोट ई–वोटिंग या ई–वोटिंग स्विधा का लाभ उठाने का हकदार नहीं होगा।

उक्त नोटिस, व्याख्यात्मक वक्तव्य, योजना तथा अपेक्षित अनुलग्नकों की प्रतियां बैठक की तिथि तक सभी कार्य दिवसों में सुबह 10.00 बजे (आईएसटी) से शाम 5.00बजे (आईएसटी) के बीच सेलन और एंटेलोपस के पंजीकृत कार्यालयों से निःशुल्क प्राप्त की जा सकती हैं और यह एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com, सेलन की वेबसाइट www.selanoil.com और एंटेलोपस की वेबसाइट www.antelopusenergy.com पर भी उपलब्ध है। इसके अलावा, सेलन के इक्विटी शेयरधारकों की बैठकों की सूचना क्रमशः बीएसई लिमिटेड और एनएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर अतिरिक्त रूप से उपलब्ध है। चूंकि संबंधित आवेदक कंपनियों के शेयरधारकों की बैठकें वीसी के माध्यम से हो रही हैं, इसलिए शेयरधारकों की कोई भौतिक उपस्थिति नहीं होगी। तदनुसार, उपरोक्त बैठकों के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा

माननीय एनसीएलटी ने उपरोक्त सभी बैठकों के लिए एस पी सिंह चावला, एडवोकेट को अध्यक्ष, श्री अश्विनी शर्मा, एडवोकेट को वैकल्पिक अध्यक्ष तथा सुश्री निहारिका सोहल, कंपनी सचिव को संवीक्षक नियुक्त किया है। यदि उक्त बैठकों में योजना को मंजूरी मिल जाती है, तो यह माननीय एनसीएलटी, चंडीगढ बेंच की मंजरी के अधीन होगी।

दिनांकः 31 अगस्त, 2024 ्स्थानः नई दिल्ली

एस पी सिंह चावला, एडवोकेट (उपर्युक्त बैठकों के लिए माननीय एनसीएलटी द्वारा नियुक्त अध्यक्ष)

MUTHOOT FINCORP LTD. | सोने की नीलामी सचना

Regd. Office: Muthoot Centre, TC No 27/3022, Punnen Road, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695001. CIN: U65929KL1997PLC011518, Ph: +91 471 4911400, 2331427

सभी सम्बद्ध व्यक्तियों की सूचना के लिए एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि 30.09.2023 & MSGL, SPL-16. One plus, Guide Prepaid, Super value, ADGL and all other 6 months tonure Gold loans up to 31.12.2023 and MSGB, SME Suvarna & EMI due up to 30.06.2024 तक की अराधि के लिए कम्पनी की नीचे कथित शाखाओं में गिरवी रखे सोने के वहनें जिन्हें छुड़ाने का समय बीत बुका है तथा जिन्हें बार-बार सूबना दिए जाने पर भी अब तक छुड़ाया नहीं गया है उनकी नीलागी 10.09.2024 को 10.00 बजे से शरू कर दी जाएगी

BHAGALPUR DISTRICT - BHAGALPUR: 431400041, 431400058, 431400059, 431400102, 431400122, 431400133, 431400135, 431400142 431400147, 431400159, 431400167, 431400168, 431400183, 431400203, 431400248, 431400249, 431400255, 431400257, 431400278, 431400279, 431400287 431400290, 431400293, 431400342, 431400392, 431400419, F2519, F2549, F2736, F2843, F2848, F2914, DARBHANGA DISTRICT - DARBHANGA-BIHAR 4302000219, 4302000236, 4302000238, 4302000264, 4302000265, 4302000283, 4302000290, 430200030, 4302000300, 4302000302, 4302000313, 4302000313, 4302000333 4302000339, 4302000340, 4302000341, 4302000365, 4302000360, 4302000362, 4302000370, 4302000386, 4302000391, 4302000394, 4302000397, 4302000401 4302000419, 4302000428, 4302000434, 4302000437, 4502000438, 4302000453, 4302000480, 430200047, 430200049, 430200055, 4302000577, 430200102 430200107, 430200128, F1619, F1678, KATHAR DISTRICT - KATHAR: 432900044, 432900078, 432900109, 432900115, 432900126, 432900168, 432900176 432900179 432900181 432900205 432900206 432900207 432900216 432900245 432900245 432900205 432900313 432900328 432900338 F3063, F3102, F3184, F48, F667, F73, MUZAFFARPUR DISTRICT - MUZAFFARPUR GOBAR SAHI: 431500061, 431500065, 431500066, 431500100, 431500112 431500323, 431500325, 431500333, 431500343, 431500346, 431500348, 431500354, 431500358, 431500373, 431500374, 431500397, 431500400, 431500400 431500473, 431500479, 431500492, 431500501, 431500502, 431500504, 431500505, 431500527, 431500642, 431500650, 431500571, 431500572, F1001, F1194 F1292, F1434, F1567, F1652, F2184, F264, F2701, F273, F2858, F2865, F2963, F2964, F297, F2991, F306, F3205, F3402, F3476, F3498, F3504, F3506, F383, F364 F424, F442, F443, F450, F451, F460, F479, F529, F531, F590, F627, F638, F933, MUZAFFARPUR ZERO MILE: 437700001, 437700007, 437700133, 437700136 437700139, 437700142, 437700158, 437700166, 437700166, 437700167, 437700182, 437700185, 437700191, 437700196, 437700196, 437700205, 437700205 437700241, 437700252, 437700258, 437700266, 437700278, 437700278, 437700286, 437700291, 437700293, 437700294, 437700294, 437700304, 437700313, 437700318, 437700321, 437700323, 437700324, 437700342, 437700344, 437700350, 437700391, 437700398, 437700401, 437700402, 437700405, F1953, F1985 F2006, F2011, F2026, F2043, F2075, F2110, F2112, F2177, F2233.

नीलामी अपनी - अपनी शाखाओं पर आयोजित की जाएगी। कृपया ध्यान दें कि यदि नीलामी किसी कारमवंश उसी दिन पूरी न हो पाईतो नीलामी 21.09.2024 को सुबह 10.00 कर BHAGALPUR: Muthoot FinCorp Ltd., Ground Floor, Door No. BC-013-0034, Girish Chand, Banarajee Road, Beside State Bank of India, Bhagalpur, Bihar - 812001 KATIHAR: Muthoot FinCorp Ltd., Ground Floor, Door No. 1, Aditya Complex, Marchaiban, Katihar Purnia Road, Civil Court Post, Kaithar District, Bihar - 854105. DARBHANGA-BIHAR: Muthoot FinCorp Ltd., Ground Floor, Khata No 20026, 20027 & 20028, Kotwali Chowk, Near Police Station and Hanuman Mandir, Naka No 5. Lalbagh Post, Darbhanga, Bihar - 846064. MUZAFFARPUR GOBAR SAHI: Muthoot FinCorp Ltd., Ground Floor, Door No: A2, Sunaina Bhawan, New Professor Colony, Opposite Mian Residency, Muzatfarpur Gobar Sahi, Chowk, Muzatfarpur, Bihar - 842001, पर आयोजित की जाएगी। निविद्याकर्ताओं से निवेदन है कि वे फोटो पहचान - पत्र, पुरु किनकॉर्प सिमिटेन PAN कार्ड प्रस्तुत करें। सफल निविदाकर्ताओं को पैसा RTGS द्वारा ट्वांसफर करना होगा ।

✓ YES BANK

यस बैंक लिभिटेड

पंजीकृत कार्यालयः यस बैंक हाउस, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास, सांताकूज ईस्ट, मुंबई- 400055 शाखा कार्यालयः - प्लॉट नंबर १/९, पटेल नगर (पश्चिम), नई दिल्ली-११००८ वेबसाइटः www.yesbank.in

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई—नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक के साथ पठित।

आम जनता को तथा विशेष रूप से उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं, गारंटर और बंधककर्ताओं को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित लेनदार के पास बंधक / प्रभारित है, जिसका भौतिक कब्जा **यस बैंक लिक्रिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी अर्थात स्रक्षित लेनदार द्वारा ले लिया गया है, उसे नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं, गारंटर और बंधककर्ताओं से स्रक्षित लेनदार को देय नीचे उल्लिखित बकाया राशि की वसूली के लिए 19 सितंबर, 2024 को "जहां है जैसा है" "जो है जैसा है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा।

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, .				
क्र.	उधारकर्ता और सह-	मांग सूचना	संपत्ति का	आरक्षित	बयाना राशि		
सं.	उधारकर्ता, गारंटर का नाम	राशि	विवरण	मूल्य (रू.)	जमा (रू.)		
1.	(1) अरविंद कुमार रॉय और	₹. 41,72,857.63	संपूर्ण प्रथम तल बिना छत के अधिकार के	रूपये	रूपये		
	(2) सुश्री मीना कुमारी	(रुपये इकतालिस लाख बहत्तर	संपत्ति संख्याः — २७३, सेक्टर—१९, द्वारका,	52,00,000 / -	5,20,000/-		
		हजार आठ सौ सत्तावन तथा पैसे	नई दिल्ली— 110075				
		तिरसठ मात्र)					
		03—अक्टूबर—2023 तक					
	ई-नीलामी की तिथि और समयः 20 सितंबर, 2024 सुबह 11 बने से दोपहर 2 बने तक, प्रत्येक 5 मिनट का विस्तार						
	बोली जमा करने की अंतिम तिथिः 17 सितंबर, 2024 दोपहर 3.00 बजे तक						
	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि और समयः 13 सितंबर, 2024 सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक।						
2	(1) -0 - 0 - (1)						
2.	(1) श्री अलीहसन अयूब और		प्लॉट नं. 119, एलआईजी, फ्लैट नं.	रूपये	रूपये		
	(2) सुश्री अंजुम नाज।	(रुपये इक्कीस लाख छह सौ	एफएफ–1, प्रथम तल, ब्लॉक–सी, चार्म्स–ट,	13,75,000 / —	1,37,500 / -		

बहत्तर और आठ पैसे मात्र) शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-।।, गांव-पसौंडा, 01-फरवरी-2023 तक देय परगना–लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ई-नीलामी की तिथि और समयः 20 सितंबर, 2024 सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक, प्रत्येक 5 मिनट का विस्तार

बोली जमा करने की अंतिम तिथिः 17 सितंबर, 2024 दोपहर 3.00 बजे तक

	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि और समयः 12 सितंबर, 2024 सुबह 2:00 बजे से दोपहर 03:00 बजे तक।									
3.	(1) सुश्री कौसर इदरीश और	⊽. 16,84,692.72 ∕ —	संपत्ति का पूरा हिस्सा प्लॉट नंबर बी–5/10,		रूपये					
	(2) मो. इदरीश	(सोलह लाख चौरासी हजार छह	एलआईजी फ्लैट नंबर जीएफ—3, ग्राउंड फ्लोर, बाएं	6,90,000 / —	69,000 / -					
		सौ बानबें और बहत्तर पैसे मात्र)	हाथ पीछे की तरफ डीएलएफ अंकुर विहार, गांव-							
		18—मई—2022 तक	लोनी, तहसील और जिला– गाजियाबाद, (यूपी) में							
			स्थित है। सीमाएं: पूर्वः प्लॉट नंबर बी-5/11,							
			पश्चिमः प्लॉट नंबर बी-5/9, उत्तरः प्लॉट नंबर							
			बी3 / 17. दक्षिणः 9.00 मीटर चौडी सडक							

ई-नीलामी की तिथि और समयः 20 सितंबर, 2024 सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक, प्रत्येक 5 मिनट का विस्तार बोली जमा करने की अंतिम तिथिः 17 सितंबर, 2024 दोपहर 3.00 बजे तक संपत्ति के निरीक्षण की तिथि और समयः 12 सितंबर, 2024 सुबह 10:00 बने से दोपहर 11:00 बने तक।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया https://www.yesbank.in/about-us/media/auction-property सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानी www.yesbank.in पर दिए गए लिंक का संदर्भ लें। निविदा दस्तावेज / ई-बिडिंग कैटलॉग प्राप्त करने या अचल संपत्तियो / सुरक्षित परिसंपत्तियों के निरीक्षण में किसी भी कठिनाई के मामले में और प्रश्नों

के लिए, कृपया यस बैंक लिमिटेड के संबंधित अधिकारियों, श्री मनीष कुमार संपर्क नंबर +919250003060 और ई-मेलः manish.kumar51@yesbank.in और मेसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर) अहमदाबाद के अधिकारियों, वेब पोर्टल पत्ते https://sarfaesi.auctiontiger.net से संपर्क करें। बोलीदाता सहायता संख्याः +91 9265562821 / 18 और 9978591888, 079–68136880 / 68136837 | ई–मेलः support@auctiontiger.net और ramprasad@auctiontiger.net, संपर्क व्यक्तिः राम शर्मा –9978591888 अधिनियम की धारा 13(8) के अनुसार, यदि हमारे द्वारा वहन की गई सभी लागतों, प्रभारों और व्ययों सहित कुल बकाया राशि नीलामी/बिक्री नोटिस के प्रकाशन से पहले किसी भी समय प्रस्तुत कर दी जाती है, तो हमारे द्वारा सुरक्षित परिसंपत्ति को बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जाएगा, और हमारे द्वारा उस सुरक्षित परिसंपत्ति के हस्तांतरण या बिक्री के लिए कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।

उधारकर्ता/गारंटर/ को बिक्री सूचना उपरोक्त को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 9(1) सहपठित 8(6) के तहत नोटिस माना जाएगा, जिसका भुगतान प्रकाशन की तिथि से 15

दिनों के भीतर दायित्वधारियों को करना होगा। हस्ता/-प्राधिकृत अधिकारी, यस बैंक लिमिटेड के लिए

दिनांक : 30.08.2024, स्थान : दिल्ली एनसीआर

क्विंट डिजिटल लिमिटेड

(पूर्व की क्विंट डिजिटल मीडिया लिमिटेड)

सीआईएन: L74110DL1985PLC373314, पंजीकृत कार्यालय: 403 प्रभात किरण, 17, राजेंद्र प्लेस, दिल्ली -110008 टेली: 011-45142374 कॉपोरेंट कार्यालयः कैमौस्टीज बिल्डिंग, प्लॉट नंबर 1, 9वीं मंजिल, सेक्टर 16ए, फिल्म सिटी, नोएडा -201301 टेली: 0120-4751818 वेबसाइट: www.quintdigitalmedia.com, ई-मेल: cs@thequint.com

39वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतदद्वारा सचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 39वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 को शाम 04:00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंस ('वीसी') / अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से एजीएम की सुचना में निर्धारित व्यवसाय को पूरा करने के लिए सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना एक सामान्य स्थल पर आयोजित की जाएगी। एजीएम के लिए स्थल कंपनी का पंजीकृत कार्यालय माना जाएगा।

8 अप्रैल, 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 13 अप्रैल, 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020, 25 सितंबर, 2023 के सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 ('एमसीए परिपत्र') के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') ('सेबी परिपत्र') द्वारा जारी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/167 दिनांक 7 अक्टूबर 2023 के साथ पठित भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') तथा अन्य प्रासंगिक परिपत्रों सहित सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई 2020 और अन्य प्रासंगिक परिपत्रों के अनुसार, कंपनी की 39वीं वार्षिक आम बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। उक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन

सदस्यों को भेजी जा रही है, जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ('डीपी')/स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ('स्काईलाइन') के साथ पंजीकृत हैं। ये कंपनी की वेबसाइट www.quintdigitalmedia.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध हैं। वार्षिक आम बैठक की सूचना सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी प्रसारित की गई संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों और सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 44,

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक-2 और एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों (भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले) को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (रिमोट ई-वोटिंग) के साथ-साथ 39वीं एजीएम की सुचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर एजीएम के दौरान ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट का प्रयोग करने की सविधा प्रदान करने में प्रसन्न है। सदस्यों को सेंट्रल डिपॉजिटरी इंडिया सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') के वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में भाग लेने की

सुविधा प्रदान की जाएगी। बैठक में भाग लेने के लिए वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक उपलब्ध होगा, जहां नोटिस में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार सफल लॉगिन के बाद कं पनी का ईवीएसएन प्रदर्शित किया जाएगा।

कंपनी ने मेसर्स डीपीवी एंड एसोसिएट्स, एलएलपी के प्रबंध साझेदार श्री देवेश विशष्ट (सीपी नंबर 13700) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतदान प्रक्रिया की जांच करने के लिए स्क्रुटिनाइजर नियुक्त किया है। परिणाम लागू कानूनों के तहत निर्धारित समय के भीतर घोषित किए जाएंगे और समेकित स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.quintdigitalmedia.com और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर रखे जाएंगे और साथ ही संबंधित स्टॉक एक्सचेंज को भी भेजे जाएंगे। परिणाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय और कॉपोरेंट कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे। अपेक्षित संख्या में वोटों के अधीन, प्रस्ताव को

एजीएम की तारीख यानी 27 सितंबर, 2024 को पारित माना जाएगा। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है किः

(क) रिमोट ई-वोटिंग शुरू होने की तिथि और समयः मंगलवार, 24 सितंबर, 2024 (सुबह 9:00 बजे भारतीय मानक समय) (ख) रिमोट ई-वोटिंग बंद होने की तिथि और समयः गुरुवार, 26 सितंबर, 2024 (शाम 5:00 बजे भारतीय मानक समय)

(ग) रिमोट ई-वोटिंग गुरुवार, 26 सितंबर, 2024 को शाम 5:00 बजे के बाद की अनुमति नहीं दी जाएगी, और एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनमति नहीं दी जाएगी।

(घ) एजीएम के दौरान इलेक्टॉनिक रूप से वोट करने की सविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

(ङ) जिन सदस्यों का नाम कट-ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 20 सितंबर, 2024 को डिपॉजिटरी द्वारा प्रबंधित सदस्यों के रजिस्टर या लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वे रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग द्वारा भाग लेने और वोट करने के हकदार होंगे। जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है, उसे इस वार्षिक आम बैठक की सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए। (च) ईवीएसएन: 240829010

(छ) जो व्यक्ति शेयर प्राप्त कर चुके हैं और सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी के सदस्य बन गए हैं, वे helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, यदि कोई सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पहले से ही पंजीकत है, तो वह लॉगिन के लिए मौजूदा लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।

(ज) जो सदस्य वार्षिक आम बैठक में उपस्थित हैं और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है, वे वार्षिक आम बैठक के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे।

(झ) कोई सदस्य ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है. लेकिन उसे एजीएम में दोबारा मतदान करने (ञ) रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए विस्तत प्रक्रिया और निर्देश एजीएम की सचना में दिए गए हैं। ये कंपनी की वेबसाइट

www.guintdigitalmedia.com पर भी उपलब्ध हैं। (ट) सदस्यों से अनुरोध है कि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ और भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में स्काईलाइन के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत करें।

(ठ) यदि आपके पास ई-वोटिंग के बारे में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप www.evotingindia.com के सहायता अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध Frequently Asked Questions ("FAQs") तथा e-voting manual देख सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल लिख सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतें श्री राकेश दलवी, सीनियर मैनेजर, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरएक्स, मैटेरियल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - 400013 को संबोधित की जा सकती हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेजें या 022-23058542/43 पर कॉल करें। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने या किसी अन्य मामले के बारे में किसी भी अन्य प्रश्न के लिए, कृपया कंपनी को

cs@thequint.com पर या स्काईलाइन को pravin.cm@skylinerta.com पर लिखें। (इ) कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 और अधिनियम और सुचीबद्धता विनियमों के अन्य लागु प्रावधानों के साथ पठित अधिनियम की धारा 91 के अनुसार, कंपनी की 39वीं वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से सदस्यों का रजिस्टर शनिवार, 21 सितंबर, 2024 से शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 (दोनों दिन अतिरिक्त) तक बंद रहेगा।

क्विंट डिजिटल लिमिटेड के लिए तरुण बेलवाल

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

सदस्यता नं. ए३९१९०

दिनांकः 30 अगस्त, 2024 स्थानः नोएडा

www.readwhere.com